



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2018 (AGRAHAYANA 1, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 नवम्बर, 2018

संख्या 101/जीएसटी-2.— हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 99/जीएसटी-2, दिनांक 6 नवंबर, 2018, में, पृष्ठ 3518 में, पंक्ति 13 में, "प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत" के स्थान पर, "प्रभाव का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत" पढ़ा जाएगा।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

*Corrigendum*

The 22nd November, 2018

**No.101 /GST-2.**— In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 99/GST-2, dated the 6th November, 2018, in page 3527, in line 13, for "furnish an application to the effect", read "furnish an undertaking to the effect".

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.

8444—C.S.—H.G.P., Pkl.

(3733)